



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६
दूरभाष सं० 011-46060559, 46060582


क्रमांक: एफ 9(95)ला.ब.शा./विकास/1051

दिनांक : 22.12.2017
01.01.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में नवनिर्मित कैन्टीन के संचालन हेतु सभी इच्छुक कैटरर्स/व्यक्तियों से निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। इस कैन्टीन को संचालित करने के लिए सुरक्षित धनराशि हेतु रू० 20,000/- जमा कराने होंगे। बिजली बिल व किराये के रूप में प्रतिमाह रू० 2,000/- का भुगतान करना होगा। कैन्टीन में चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ा (मानक आकार), बिस्कुट (नमकीन एवं मीठा), शीतल पेय पदार्थ एवं विद्यापीठ की आवश्यकतानुसार भोजन आदि की व्यवस्था, कैटर को संलग्न सूची के अनुसार करनी होगी।

सभी इच्छुक कैटरर्स/व्यक्ति कैन्टीन संचालन हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों (संलग्न) के अनुसार अपनी निविदाये, इस सूचना के जारी होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर उपरोक्त पदार्थों की न्यूनतम दरों के साथ विद्यापीठ कार्यालय में जमा करवाएँ। आवेदन 'सहायक कुलसचिव (विकास एवं लेखा)' श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016 के पते पर प्रेषित किया जाना चाहिए।


सहायक कुलसचिव (विकास)

For website



Terms & Conditions

1. For the smooth operations of the canteen, the Vidyapeetha shall provide a well built Canteen with electricity and water facility.
2. The Caterer shall pay advance rent of Rs 2,000/-p.m to the Vidyapeetha through online mode on or before 5th of every month. Security Deposit of Rs. 20,000/- (non interest bearing) will be made by the caterer.
3. Caterer will engage competent staff for running the canteen at the Vidyapeetha premises.
4. Caterer will keep and maintain the canteen in a clean and hygienic way.
5. Caterer will ensure proper usage of infrastructure. No damages should be caused to the premises, its fittings and fixture etc. In case of any damage, the cost of the material/item etc shall be recovered from Caterer.
6. Caterer will ensure a quality control over the items supplied and will not serve adulterated food.
7. Caterer will make proper arrangements to supply tea and snacks during office/lunch hours.
8. Caterer shall display the items and their rates at the canteen Notice Board.
9. Caterer shall ensure that no non-vegetarian food/alcoholic beverage is served in the Vidyapeetha canteen.
10. The initial agreement shall be valid for a period of one year. As per the discretion of the Competent Authority, this agreement may be extended for a further period of one year on each occasion upto a maximum period of total 3 years subject to satisfactory work performance and services provided by Caterer.
11. The Vidyapeetha shall not be liable to pay any kind of compensation to the Caterer arising out of any eventuality/accident.
12. The canteen operator shall provide the items as per the signed rate list provided by the operator. Rate of the items shall not be increased by the canteen operator during the period of agreement.
13. This agreement is liable to be terminated at any time within the contract period by giving one month's notice in advance from either side.

14. Self attested copy of PAN Card, Address Proof, Registration Certificate/GST of the firm will be provided by the contractor.
15. The canteen operator shall keep a Suggestion / Complaint Box in the canteen.
16. The staff (not below the age of 18 years) employed by the contractor should be medically fit and free from any ailment. The contractor shall not employ young children as prohibited under the law / rules / regulations.
17. The contractor will make his own arrangement for cooking gas, crockery, cutlery, glasses and other kitchen equipment. Disposable good quality paper made items for tea etc shall be allowed but not of plastic material.
18. The contractor shall provide the necessary details of all its employees to the Vidyapeetha and their antecedents duly verified by Police.
19. The contractor will use only the commercial cylinder and ISI marked gas stove for the purpose of cooking.
20. Police verification and worker's identity cards will be the responsibility of the Caterer before taking the charge of canteen. Employees of the Caterer should be in proper Uniform provided by the contractor.
21. The mode of payment for Canteen services by the customers should be digital. For this, the Caterer will make proper arrangements for swapping machines and digital receipt of amount.
22. All disputes would be subject to jurisdiction of Courts at Delhi only.

Signature :

Name:

कैंटीन

क्र०सं०	वस्तु का नाम	दर
1.	समोसा	
2.	कचौड़ी	
3.	ब्रेड पकौड़ा	
4.	चाय	
5.	काँफी	
6.	मट्ठी	
7.	मैगी	
8.	छाछ (पैकेट)	
9.	दही (पैकेट)	
10.	मिनरल वॉटर	
11.	इडली साम्भर	
12.	ढोकला	
13.	चाउमिन (फुल प्लेट/हॉफ प्लेट)	
14.	सैंडविच	
15.	छोले भठूरे	
16.	आलू पैटीज	
17.	भोजन (लंच) थाली (रोटी/पूरी, दाल, सब्जी, चावल, रायता एवं सलाद)	
18.	मीठा (हलवा, गुलाब जुमान)	
19.	बिस्कुट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य पैकेटबंद खाद्य सामग्री	प्रिंट रेट पर
20.	आइस्क्रीम	प्रिंट रेट पर

नोट: यदि कोई कैंटरर्स उपरोक्त सूची के अतिरिक्त अन्य खाद्य सामग्री की सूची देना चाहते हैं तो वह दर सहित सूची संलग्न कर सकते हैं ।

नाम :

हस्ताक्षर :

Eligibility Criteria :

1. The Caterer should have minimum five preceding years experience as Canteen Operator as on 31-03-2017.
2. Out of the five years experience mentioned above, at least two years experience should be of any educational institution having more than 150 employees and 1000 plus students at the premises where Canteen was being operated by the Caterer.
3. The Caterer should have valid Registration Number, PAN and GST Number.
4. The documents in support of 1, 2 and 3 above alongwith the proof of address of the office of Caterer and ITR for last two years should be enclosed with the application.
5. EMD in the shape of Demand Draft of Rs. 1,000/- (Rs. One thousand only) in favour of Registrar, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha " payable at New Delhi should be enclosed along with the application.
6. Duly signed rate list of Canteen items should be enclosed with the application.
7. Signed copy of the Terms & Conditions should be enclosed with the application.